



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ज्येष्ठ 13, 1937

No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015/ JYAISTHA 13, 1937

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2015

का.नि.आ. 7(अ).— केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 17 मई, 2015 को नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट छावनी परिषदों की बाबत हुए साधारण निर्वाचनों में सदस्यों के निर्वाचन को अधिसूचित करती है अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड	वार्ड संख्या	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम	आरक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अहमदाबाद	वार्ड सं. VII	गणेश गीरीशकुमार रामचन्द्र	(अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित)
2.	बकलोह	वार्ड सं. I	शर्मीला राई	
3.	बादामीबाग	वार्ड सं. I	परवेज अहमद डार	
		वार्ड सं. II	मोहम्मद अशरफ लोन	
		वार्ड सं. III	अब्दुल समी वानी	
		वार्ड सं. IV	सायमा शाह	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. V	रईस अहमद मलिक	
		वार्ड सं. VI	मनजीत कौर	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. VII	बिलाल अहमद वानी	
4.	जम्मू	वार्ड सं. I	हरदेव सिंह	
		वार्ड सं. II	राजेश बख्शी	

		वार्ड सं. III	जसमीत कौर	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. IV	परदीप कौर	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. V	जतिन्दर सिंह	
		वार्ड सं. VI	हरमोहिन्दर सिंह	
		वार्ड सं. VII	भारत भूषण	
5.	रामगढ़	वार्ड सं. I	बेबी प्रसाद	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. II	अनमोल सिंह	
		वार्ड सं. III	राजेन्द्र नायक	(अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. IV	कैलाश मुण्डा	
		वार्ड सं. V	संजीत सिंह	
		वार्ड सं. VI	पुरनी देवी	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. VII	प्रभु करमाली	(अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित)
		वार्ड सं. VIII	रेणु सिंह	(स्त्रियों के लिए आरक्षित)

[फा. सं. 14(2)/2012-डी (क्यू एंड सी)]

दीपक अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2015

S.R.O. 7(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby notifies, the election of the members at the ordinary elections held on the 17th May, 2015 in respect of the Cantonment Boards specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Cantonment Boards	Ward No.	Name of the candidates elected	Reservation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ahmedabad	Ward No. VII	Ganesh Girishkumar Ramchandra	(Reserved for Scheduled Castes)
2.	Bakloh	Ward No. I	Sharmila Rai	
3.	Badamibagh	Ward No. I	Parvaiz Ahmad Dar	
		Ward No. II	Mohammad Ashraf Lone	
		Ward No. III	Ab. Sami Wani	
		Ward No. IV	Saima Shah	(Reserved for women)
		Ward No. V	Raies Ahmad Malik	
		Ward No. VI	Manjeet Kour	(Reserved for women)
		Ward No. VII	Bilal Ahmad Wani	
4.	Jammu	Ward No. I	Hardev Singh	
		Ward No. II	Rajesh Bakshi	
		Ward No. III	Jasmeet Kour	(Reserved for women)
		Ward No. IV	Pardeep Kour	(Reserved for women)
		Ward No. V	Jatinder Singh	
		Ward No. VI	Harmohinder Singh	
		Ward No. VII	Bharat Bhushan	
5.	Ramgarh	Ward No. I	Baby Prasad	(Reserved for women)
		Ward No. II	Anmol Singh	
		Ward No. III	Rajendra Nayak	(Reserved for Scheduled Castes)

		Ward No. IV	Kailash Munda	
		Ward No. V	Sanjeet Singh	
		Ward No. VI	Purni Devi	(Reserved for women)
		Ward No. VII	Prabhu Karmali	(Reserved for Scheduled Tribes)
		Ward No. VIII	Renu Singh	(Reserved for women)

[F. No. 14(2)/2012-D (Q&C)]

DEEPAK ANURAG, Jt. Secy.